

## प्रेस नोट दिनांक 20-11-21

### थाना लाइनपार जनपद फिरोजबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में चलाये जा रहे चैकिंग अभियान संदिग्ध व्यक्ति /वाहन के क्रम में थाना लाइनपार पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

- अभियुक्त आरिफ से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।
- अभियुक्त अन्नु उर्फ अजय प्रताप से 20 क्वाटर अवैध शराब एवं बिक्री के 7285 रुपये बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 20.11.21 को समय करीब 07.30 बजे वेस्ट ग्लास तिराह से लेकर लेवर कालोनी वाली सड़क थाना क्षेत्र लाइनपार फिरोजाबाद से मय 01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के अभियुक्त आरिफ पुत्र नूर मोहम्मद निवासी कश्मीरी गेट 60 फुटा रोड थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद व अभियुक्त अन्नु उर्फ अजय प्रताप पुत्र लहरी सिंह निवासी गौलाई होटल के पास छारबाग थाना लाइनपार जिला फिरोजाबाद को रामनगर में अंग्रेजी शराब के ठेके के सामने चबूतरे पर बैठकर सुबह 08.30 बजे ( दुकान खुलने के नियम से पहले ) ठेका देशी शराब के क्वाटर विक्रय करते हुए मय 20 अदद क्वाटर ठेका देशी शराब व बिक्री के 7285 रु० के गिरफ्तार किया गया, बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 219/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आरिफ उपरोक्त व मु०अ०सं० 220/21 धारा 60 आब० अधि० बनाम अन्नु उर्फ अजय प्रताप उपरोक्त पंजीकृत किये गये । अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त –**

आरिफ पुत्र नूर मोहम्मद निवासी कश्मीरी गेट 60 फुटा रोड थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।

#### **आपराधिक इतिहास-**

मु०अ०सं० 219/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आरिफ उपरोक्त थाना लाइनपार फिरोजाबाद

#### **माल बरामदगी-**

01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त:-**

अन्नु उर्फ अजय प्रताप पुत्र लहरी सिंह निवासी गौलाई होटल के पास छारबाग थाना लाइनपार जिला फिरोजाबाद ।

#### **आपराधिक इतिहास:-**

1. मु०अ०सं० 220/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लाइनपार फिरोजाबाद ।

#### **माल बरामदगी-**

20 क्वाटर ठेका देशी शराब व बिक्री के 7285 रु० ।

#### **गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ०नि० श्री शिवकुमार उपाध्याय थाना लाइनपार फिरोजाबाद ।
2. उ०नि० श्री रोशनलाल मय हमराह कर्म०गण थाना लाइनपार फिरोजाबाद ।